

दि रॉबर्ट एच.एन. हो फैमिली फाउंडेशन

बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु फेलोशिप और अनुदान प्रतियोगिताएँ

2021-22

अमेरिकन काउंसिल ऑफ लर्नेड सोसाइटीज द्वारा संचालित

निम्न प्रतियोगिताओं के लिए अंतिम समय सीमा न्यूयॉर्क के समय अनुसार नवंबर 15, 2021 को रात 9 बजे तक है:

- बौद्ध धर्म के अध्ययन में शोध निबंध के लिए फेलोशिप
- बौद्ध धर्म के अध्ययन में आरंभिक कार्यकाल फेलोशिप
- बौद्ध धर्म के अध्ययन में अनुवाद के लिए अनुदान

निम्न प्रतियोगिताओं के लिए अंतिम समय सीमा न्यूयॉर्क के समय अनुसार 11 जनवरी 2022 को रात 9 बजे तक है:

- बौद्ध धर्म के अध्ययन में प्राध्यापकों के लिए नए पद
- बौद्ध धर्म के आम विद्वान

एशियाई विश्वविद्यालयों और मठ संबंधी संस्थानों के विद्वानों को विशेष रूप से आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अमेरिकन काउंसिल ऑफ लर्नेड सोसाइटीज (ACLS) ने बौद्ध धर्म के अध्ययन में अनुसंधान और शिक्षण का समर्थन करने वाली एक पहल के नौवें वर्ष की घोषणा की, जिसके लिए दि रॉबर्ट एच.एन. हो फैमिली फाउंडेशन द्वारा उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता दी गई है। फाउंडेशन के सहयोग से, ACLS फेलोशिप और अनुदान प्रतियोगिताओं का एक एकीकृत समुच्चय प्रदान करता है, जो उस काम का समर्थन करता है, जो छात्रवृत्ति और समाज में बौद्ध विचारों की समझ और व्याख्या का विस्तार करेगा, **बौद्ध धर्म के अध्ययन** के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को मजबूत करेगा, और उन अध्ययनों में नवीन धाराओं के दृष्टि क्षेत्र को बढ़ाएगा।

बौद्ध धर्म के अध्ययन में दि रॉबर्ट एच.एन. हो फैमिली फाउंडेशन कार्यक्रम, जो ACLS द्वारा संचालित है, योग्यता के अभिन्न घटकों के रूप में सन्निवेश, समानता और विविधता के लिए प्रतिबद्ध है, जो विद्वानों की व्यवहार-कुशलता में वृद्धि करते हैं। यह इस कार्यक्रम की प्राथमिकता है कि विद्वत्समाज के सदस्य और अनुदानग्राहीओं के समूह अलग-अलग पृष्ठभूमि, संस्कृतियों और ऐसे किसी भी पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस कार्यक्रम को अद्वितीय बनाते हैं। बौद्ध अध्ययनों में हम नागरिकता और संस्थागत संबद्धता के साथ-साथ भाषाओं, विषयों, बौद्ध परंपराओं और अनुसंधान के स्थानों के संबंध में संतुलन चाहते हैं।

कार्यक्रम के विषय में सामान्य जानकारी के लिए:

<https://www.acls.org/Programs/The-Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies>

उपलब्ध अनुदानों के विषय में जानकारी के लिए:

<https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/The-Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies>

कृपया सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न पढ़ें:

<https://www.acls.org/FAQ/Robert-H-N-Ho-Family-Foundation-Program-in-Buddhist-Studies>